

מֶלֶךְ-	חֲבֵרוֹן	מֶלֶךְ-	יְרוּשָׁלַם	מֶלֶךְ	הָאֱמֹרִי	מֶלֶכִי	חַמְשָׁת	וַיַּעֲלוּ	וַיֵּאָסְפוּ	5
राजा	हेब्रोन-का	राजा	यरूशलेम-का	राजा	एमोरियों-के	राजाओं	पाँच	और-चढ़े	और-इकट्ठे-हुए	
H4428		H4428	H3389	H4428	H0567	H4428	H2568	H5927	H0622	
עַל-	וַיַּחֲנוּ	מִחַנֵּיהֶם	וְכָל-	הָם	עַגְלוֹן	מֶלֶךְ-	לְכִישׁ	מֶלֶךְ-	יִרְמוּת	
पर	और-डेरा-डाला	छावनियां-उनकी	और-सब	वे	एग्लोन-का	राजा	लाकीश-का	राजा	यर्मूत-का	
	H2583	H4264	H3605	H1992	H5700	H4428	H3923	H4428	H3412	
							עָלֶיהָ:	וַיִּלְחָמוּ	גִבְעוֹן	
							उसके-विरुद्ध	और-लड़े	गिबोन	
									H1391	

इस प्रकार पाँच एमोरी राजाओं ने सेनाओं को मिलाया। (ये पाँचों यरूशलेम के राजा, हेब्रोन के राजा, यर्मूत के राजा, लाकीश के राजा, और एग्लोन के राजा थे।) वे सेनायें गिबोन गईं। सेनाओं ने नगर को घेर लिया और इसके विरुद्ध युद्ध करना आरम्भ किया।

תָּרַף	אַל-	לְאָמֹר	הַגִּלְגָּל	הַמַּחְנֶה	אַל-	יְהוֹשֻׁעַ	אַל-	גִּבְעוֹן	אֲנָשִׁי	וַיִּשְׁלַחוּ	6
ढीला	मत	कहते-हुए	गिलगाल-में	छावनी-के	पास	यहोशू-के	पास	गिबोन-के	पुरुषों-ने	और-भेजा	
H7503	H0408	H0559	H1537	H4264	H0413	H3091	H0413	H1391	H0376	H7971	
כִּי	וַעֲזָרוּנוּ	לָנוּ	וְהוֹשִׁיעָה	מְהֵרָה	אֵלֵינוּ	עָלָה	מֵעֲבָדָיו	יָרִי			
क्योंकि	और-सहायता-कर-हमारी	हमें	और-बचा	जल्दी	हमारे-पास	आ	दासों-से-अपने	हार्थों-को-अपने			
	H5826		H3467	H4120	H0413	H5927	H5650	H3027			
				הָהָר:	יִשְׁבִּי	הָאֱמֹרִי	מֶלֶכִי	כָּל-	אֵלֵינוּ	נִקְבְּצוּ	
				पहाड़-के	निवासियों	एमोरियों-के	राजाओं	सब	हमारे-विरुद्ध	इकट्ठे-हुए	
				H2022	H3427	H0567	H4428	H3605	H0413	H6908	

गिबोन नगर में रहने वाले लोगों ने गिलगाल के डेरे में यहोशू को खबर भेजी: “हम तुम्हारे सेवक हैं! हम लोगों को अकेले न छोड़ो। आओ और हमारी रक्षा करो! शीघ्रता करो! हमें बचाओ! पहाड़ी प्रदेशों के सभी एमोरी राजा अपनी सेनायें एक कर चुके हैं। वे हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं।”

גִּבּוֹרֵי	וְכָל	עִמּוֹ	הַמִּלְחָמָה	עִם	וְכָל-	הוּא	הַגִּלְגָּל	מִן-	יְהוֹשֻׁעַ	וַיַּעֲלוּ	7
शूरवीरों	और-सब	उसके-साथ	युद्ध-के	लोग	और-सब	वह	गिलगाल	से	यहोशू	और-चढ़ा	
H1368	H3605		H4421		H3605	H1931	H1537		H3091	H5927	
										פ	
										—	הַחֵיל:
											बल-के
											H2428

इसलिए यहोशू गिलगाल से अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिये चला। यहोशू के उत्तम योद्धा उसके साथ थे।

יַעֲמֹד	לֹא-	נִתְּתִים	בְּיָדָךְ	כִּי	מֵהֶם	תִּירָא	אַל-	יְהוֹשֻׁעַ	אַל-	יְהוּוָה	וַיֹּאמֶר	8
ठहरेगा	नहीं	दिया-मैंने-उन्हें	हाथ-में-तेरे	क्योंकि	उनसे	डर	मत	यहोशू	से	यहोवा-ने	और-कहा	
H5975	H3808	H5414	H3027		H1992	H3372	H0408	H3091	H0413	H3068	H0559	
											אִישׁ	
											सामने-तेरे	
											उनमें-से	
											पुरुष	
											H6440	H1992
											H0376	

यहोवा ने यहोशू से कहा, “उन सेनाओं से डरो नहीं। मैं तुम्हें उनको पराजित करने दूँगा। उन सेनाओं में से कोई भी तुमको हराने में समर्थ नहीं होगा।”

הַגִּלְגָּל:	מִן	עָלָה	הַלַּיְלָה	כָּל-	פְּתָאם	יְהוֹשֻׁעַ	אֲלֵיהֶם	וַיָּבֹא	9
गिलगाल	से	चढ़ा	रात	सारी	अचानक	यहोशू	उनके-पास	और-आया	
H1537		H5927	H3915	H3605	H6597	H3091	H0413	H0935	

यहोशू और उसकी सेना रात भर गिबोन की ओर बढ़ती रही। शत्रु को पता नहीं था कि यहोशू आ रहा है। इसलिए जब उसने आक्रमण किया तो वे चौंक पड़े।

ऐसा उस दिन के पहले किसी भी समय कभी नहीं हुआ था और तब से अब तक कभी नहीं हुआ है। वही दिन था, जब यहोवा ने मनुष्य की प्रार्थना मानी। वास्तव में यहोवा इस्राएलियों के लिये युद्ध कर रहा था!

וַיָּשָׁב יְהוֹשֻׁעַ וְכָל-יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ אֶל-הַמַּחֲנֶה הַגִּלְגָּלִי: 15
 और-लौटा और-सब इस्राएल उसके-साथ पास छावनी-के गिलगाल-में
[H1537](#) [H4264](#) [H0413](#) [H3478](#) [H3605](#) [H3091](#) [H7725](#)

इसके बाद, यहोशू और उसकी सेना गिलगाल के डेरे में वापस हुई।

וַיָּסֹוּ וַחֲמִשָּׁתַּיִם הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה וַיַּחֲבֹאוּ בְּמַעַרְהַ בְּמַקְדָּה: 16
 और-भागे पांच राजाओं ये और-छिपे और-छिपे गुफा-में मक्केदा-में
[H4719](#) [H4631](#) [H2244](#) [H0428](#) [H4428](#) [H2568](#) [H5127](#)

युद्ध के समय पाँचों राजा भाग गए। वे मक्केदा के निकट गुफा में छिप गए।

וַיִּגְדַּר לַיהוֹשֻׁעַ לֵאמֹר נִמְצְאוּ חַמֵּשָׁתַּיִם הַמְּלָכִים וַחֲמִשָּׁתַּיִם בְּמַקְדָּה: 17
 और-बताया-गया और-बताया-गया यहोशू-को कहते-हुए पाए-गए पांच राजाओं छिपे-हुए गुफा-में मक्केदा-में
[H4719](#) [H4631](#) [H2244](#) [H4428](#) [H2568](#) [H4672](#) [H0559](#) [H3091](#) [H5046](#)

किन्तु किसी ने पाँचों राजाओं को गुफा में छिपे पाया। यहोशू को इस बारे में पता चला।

וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ נָלוּ אֲבָנִים גְּדֹלוֹת אֶל-פִּי הַמַּעַרְהָ וְהַפְקִידוּ עָלֶיהָ אַנְשִׁים 18
 और-कहा और-कहा यहोशू-ने लुढ़काओ पत्थर बड़े पास मुंह गुफा-के और-नियुक्त-करो उस-पर पुरुषों-को
[H0376](#) [H4631](#) [H6310](#) [H0413](#) [H0068](#) [H1556](#) [H3091](#) [H0559](#)

לְשֹׁמְרָם:
 रखवाली-करने-के-लिए-उन्हें
[H8104](#)

यहोशू ने कहा, “गुफा को जाने वाले द्वार को बड़ी शिलाओं से ढक दो। कुछ पुरुषों को गुफा की रखवाली के लिये वहाँ रखो।

וְאַתֶּם אֶל-תַּעֲמְדוּ רְדֹפוּ אַחֲרַי אֵיבֵיכֶם וְזַנְבָתֶם אוֹתָם אֶל-הַתְּזִנּוּ 19
 और-तुम और-तुम मत खड़े-रहो पीछा-करो पीछे शत्रुओं-के-अपने और-काटो-पीछलों-को उन्हें मत देना
[H5414](#) [H0408](#) [H0853](#) [H2179](#) [H0341](#) [H7291](#) [H5975](#) [H0408](#)

לְבוֹא אֶל-עָרֵיהֶם כִּי נָתַתֶּם יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם בְּיַדְכֶם:
 जाने-के-लिए पास नगरों-के-अपने क्योंकि दिया-है-उन्हें यहोवा-ने परमेश्वर-तुम्हारे परमेश्वर-तुम्हारे हाथ-में-तुम्हारे
[H0413](#) [H0935](#) [H0413](#) [H5414](#) [H3068](#) [H0430](#) [H3027](#)

किन्तु वहाँ स्वयं न रहो। शत्रु का पीछा करते रहो। उन पर पीछे से आक्रमण करते रहो। शत्रुओं को अपने नगर तक सुरक्षित न पहुँचने दो। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें उन पर विजय दी है।”

וַיְהִי וַיְהִי וְהָיָה יְהוֹשֻׁעַ וּבְנָיִ יִשְׂרָאֵל לְהַפּוֹתָם מִכָּה גְּדוֹלָה מְאֹד עַד- 20
 और-हुआ और-हुआ और-हुआ यहोशू-ने समाप्त-करने-पर क्लौत-पर और-पुत्रों-ने इस्राएल-के मारना-उन्हें मार मार बड़ी बहुत तक
[H5704](#) [H3966](#) [H4347](#) [H5221](#) [H3478](#) [H3091](#) [H3615](#) [H1961](#)

תָּמָם וְהַשְּׂרִירִים שָׂרְדוּ מִמָּהּ וַיָּבֹאוּ אֶל-עָרֵי הַמְּבָצָר:
 समाप्त-होने-उनके और-बचे-हुए बच-गए उनमें-से और-आए पास नगरों-के गढ़-के
[H4013](#) [H0413](#) [H0935](#) [H1992](#) [H8277](#) [H8300](#) [H8552](#)

इस प्रकार यहोशू और इस्राएल के लोगों ने शत्रु को मार डाला। किन्तु शत्रुओं में से जो कुछ अपने सुदृढ़ परकोटों से घिरे नगरों में पहुँच जाने में सफल हो गए और छिप गए। वे व्यक्ति नहीं मारे गए।

וַיִּשְׁבוּ כָּל-הָעָם אֶל-הַמַּחֲנֶה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ מַקְדָּה בְּשָׁלוֹם לֹא-תֵּז קָרָן 21
 और-लौटे और-लौटे सब लोग पास छावनी-के पास इस्राएल-के इस्राएल-के विरुद्ध और-लौटे
[H2782](#) [H3808](#) [H7965](#) [H4719](#) [H3091](#) [H0413](#) [H4264](#) [H0413](#) [H3605](#) [H7725](#)

לְבָנָיִ יִשְׂרָאֵל לְאִישׁ אֶת-לְשֹׁנֹו:
 पुत्रों-के-विरुद्ध इस्राएल-के किसी-ने को जीभ-अपनी
[H3956](#) [H0853](#) [H0376](#) [H3478](#)

युद्ध के बाद, यहोशू के सैनिक मक्केदा में उनके पास आए। उस प्रदेश में किसी भी जाति के लोगों में से कोई भी इतना साहसी नहीं था कि वह लोगों के विरुद्ध कुछ कह सके।

तब यहोशू ने पाँचों राजाओं को मार डाला। उसने उनके शव पाँच पेड़ों पर लटकाया। यहोशू ने उन्हें सूरज ढलने तक वहीं लटकते छोड़े रखा।

וַיִּשְׁלַחְם और-फेंका-उन्हें H7993	הַעֲצִים पेड़ों H6086	מֵעַל से-उपर H3381	וַיִּרְדּוּם और-उतारा-उन्हें H3381	יְהוֹשֻׁעַ यहोशू-ने H3091	צָוָה आज्ञा-दी H6680	הַשָּׁמֶשׁ सूर्य-के H8121	בָּוא डूबने-के H0935	וְלֵעֵת समय-पर H6256	וַיְהִי और-हुआ H1961	27	
עַד- तक H5704	הַמְּעָרָה गुफा-के H4631	פִּי मुंह H6310	עַל- पर H5704	גְּדֻלוֹת बड़े H1419	אֲבָנִים पत्थर H0068	וַיִּשְׂמוּ और-रखा H8033	שָׁם वहां H8033	נֶחְבְּאוֹ- छिपे-थे H2244	אֲשֶׁר जहां H8033	הַמְּעָרָה गुफा-के H4631	אֶל- पास H0413
								פ —	הַיּוֹם इस दिन H2088	הַיּוֹם दिन H3117	עֲצָם हड्डी H6106

सूरज ढले को यहोशू ने अपने लोगों से शवों को पड़ों से उतारने को कहा। तब उन्होंने उन शवों को उस गुफा में फेंक दिया जिसमें वे छिपे थे। उन्होंने गुफा के द्वार को बड़ी शिलाओं से ढक दिया। जो आज तक वहाँ हैं।

מֶלֶכָה राजा-को-उसके H4428	וְאֵת- और H0853	חָרֵב तलवार-की H2719	לְפִי- धार-से H6310	וַיִּכּוּ और-मारा-उसे H5221	הָהוּא उस H1931	בַּיּוֹם दिन-में H3117	יְהוֹשֻׁעַ यहोशू-ने H3091	לְכַד- पकड़ा H3920	מִמְּקֵדָה मक्केदा-को H4719	וְאֵת- और H0853	28
לְמֶלֶךְ राजा-को H4428	וַיַּעַשׂ और-किया H8300	שָׂרִיד जीवित H8300	הַשְּׂאִיר बचाया H7604	לֹא नहीं H3808	בָּהּ उसमें H3808	אֲשֶׁר- जो H8033	הַנְּפֹשׁ प्राणियों H5315	כָּל- सब H3605	וְאֵת- और H0853	אוֹתָם उन्हें H0853	הַחָרֵם नाश-किया H0853
							יְרִיחוֹ: यरीहो-के H3405	לְמֶלֶךְ राजा-को H4428	עָשָׂה किया-था H8033	כַּאֲשֶׁר जैसा H8033	מִמְּקֵדָה मक्केदा-के H4719

उस दिन यहोशू ने मक्केदा को हराया। यहोशू ने राजा और उस नगर के लोगों को मार डाला। वहाँ कोई व्यक्ति जीवित न छोड़ा गया। यहोशू ने मक्केदा के राजा के साथ भी वही किया जो उसने यरीहो के राजा के साथ किया था।

לְבַנָּה: लिबना H3841	עִם- के-साथ H8033	וַיִּלָּחֶם और-लड़ा H3841	לְבַנָּה लिबना-को H3841	מִמְּקֵדָה मक्केदा-से H4719	עִמוֹ उसके-साथ H3841	יִשְׂרָאֵל इस्त्राएल H3478	וְכָל- और-सब H3605	יְהוֹשֻׁעַ यहोशू H3091	וַיַּעֲבֹר और-पार-हुआ H3091	29
---	---	---	---	---	--	--	--	--	---	----

तब यहोशू और इस्त्राएल के सभी लोग ने मक्केदा से यात्रा की। वे लिबना गए और उस नगर पर आक्रमण किया।

לְפִי- धार-से H6310	וַיִּכּוּ और-मारा-उसे H5221	מֶלֶכָה राजा-को-उसके H4428	וְאֵת- और H0853	יִשְׂרָאֵל इस्त्राएल-के H3478	בְּיַד- हाथ-में H3027	אוֹתָהּ उसे H0853	גַּם- भी H1571	יְהוֹוָה यहोवा-ने H3068	וַיִּתֵּן और-दिया H5414	30	
לְמֶלֶךְ राजा-को-उसके H4428	וַיַּעַשׂ और-किया H8300	שָׂרִיד जीवित H8300	בָּהּ उसमें H7604	הַשְּׂאִיר बचाया H7604	לֹא- नहीं H3808	בָּהּ उसमें H3808	אֲשֶׁר- जो H8033	הַנְּפֹשׁ प्राणियों H5315	כָּל- सब H3605	וְאֵת- और H0853	חָרֵב तलवार-की H2719
							יְרִיחוֹ: यरीहो-के H3405	לְמֶלֶךְ राजा-को H4428	עָשָׂה किया-था H8033	כַּאֲשֶׁר जैसा H8033	

यहोवा ने इस्त्राएल के लोगों को उस नगर और उसके राजा को पराजित करने दिया। इस्त्राएल के लोगों ने उस नगर के हर एक व्यक्ति को मार डाला। कोई व्यक्ति जीवित नहीं छोड़ा गया और लोगों ने राजा के साथ वही किया जो उन्होंने यरीहो के राजा के साथ किया था।

וַיִּלָּחֶם और-लड़ा H3841	עִלְיָהּ उस-पर H5833	וַיִּחַן और-डेरा-डाला H2583	לְכִישָׁה लाकीश-को H3923	מִלְּבַנָּה लिबना-से H3841	עִמוֹ उसके-साथ H3841	יִשְׂרָאֵל इस्त्राएल H3478	וְכָל- और-सब H3605	יְהוֹשֻׁעַ यहोशू H3091	וַיַּעֲבֹר और-पार-हुआ H3091	31
---	--	---	--	--	--	--	--	--	---	----

בָּהּ:
उससे

तब यहोशू और इस्त्राएल के सभी लोगों ने लिबना को छोड़ा और उन्होंने लाकीश तक की यात्रा की। यहोशू और उसकी सेना ने लिबना के चारों ओर डेरे डाले और तब उन्होंने नगर पर आक्रमण किया।

32 וַיִּתֵּן אֶת־יְהוָה לָכִישׁ בְּיַד יִשְׂרָאֵל וַיִּלְכְּדוּהָ בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי וַיָּבִיאוּ אֶת־יְהוָה לָכִישׁ וַיִּתֵּן אֶת־יְהוָה לָכִישׁ בְּיַד יִשְׂרָאֵל וַיִּלְכְּדוּהָ בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי וַיָּבִיאוּ אֶת־יְהוָה לָכִישׁ
 और-दिया और-मारा-उसे और-पकड़ा-उसे और-मारा-उसे और-मारा-उसे और-मारा-उसे और-मारा-उसे और-मारा-उसे और-मारा-उसे और-मारा-उसे और-मारा-उसे
[H6310](#) [H5221](#) [H8145](#) [H3117](#) [H3920](#) [H3478](#) [H3027](#) [H3923](#) [H0853](#) [H3068](#) [H5414](#)

וְאֵת־כָּל־הַנְּפֹשׁ אֲשֶׁר־בָּהּ כָּל־אֲשֶׁר־בָּהּ כָּל־אֲשֶׁר־בָּהּ כָּל־אֲשֶׁר־בָּהּ כָּל־אֲשֶׁר־בָּהּ כָּל־אֲשֶׁר־בָּהּ כָּל־אֲשֶׁר־בָּהּ
 और-तलवार-की
[H3841](#) [H3605](#) [H5315](#) [H3605](#) [H0853](#) [H2719](#)

यहोवा ने इस्राएल के लोगों द्वारा लाकीश नगर को पराजित करने दिया। दूसरे दिन उन्होंने उस नगर को हराया। इस्राएल के लोगों ने इस नगर के हर एक व्यक्ति को मार डाला यह वैसा ही था जैसा उसने लिब्ना में किया था।

33 וַיָּבִיאוּ אֶת־יְהוָה לָכִישׁ לְעֶזְרָא מֶלֶךְ הַרְּמָה וַיִּבְרָחוּ אֶת־יְהוָה לָכִישׁ לְעֶזְרָא מֶלֶךְ הַרְּמָה וַיִּבְרָחוּ אֶת־יְהוָה לָכִישׁ לְעֶזְרָא מֶלֶךְ הַרְּמָה
 और-तब और-मारा-उसे
[H0853](#) [H3091](#) [H5221](#) [H3923](#) [H0853](#) [H5826](#) [H1507](#) [H4428](#) [H2036](#) [H5927](#)

עַמּוֹן עַד־בְּלִי בְּלִי־הַשְּׂאִיר לֹא־שָׁרִיד
 लोनों-को-उसके तक बिना बचाने उसके-लिए जीवित
[H8300](#) [H7604](#) [H1115](#) [H5704](#)

इसी समय गेजर का राजा होरोम लाकीश की सहायता करने आया। किन्तु यहोशू ने उसे और उसकी सेना को भी हराया। कोई व्यक्ति जीवित नहीं छोड़ा गया।

34 וַיַּעֲבֹר
 और-हुआ और-पार-हुआ
[H2583](#) [H5700](#) [H3923](#) [H3478](#) [H3605](#) [H3091](#)

עַל־יָדָא
 उसके-विरुद्ध

तब यहोशू और इस्राएल के सभी लोग लाकीश से एग्लोन गए। उन्होंने एग्लोन के चारों ओर डेरे डाले और उस पर आक्रमण किया।

35 וַיִּלְכְּדוּהָ בַּיּוֹם הַהוּא וַיָּבִיאוּ אֶת־יְהוָה לָכִישׁ בְּיַד יִשְׂרָאֵל וַיִּלְכְּדוּהָ בַּיּוֹם הַהוּא וַיָּבִיאוּ אֶת־יְהוָה לָכִישׁ בְּיַד יִשְׂרָאֵל
 और-पकड़ा-उसे और-मारा-उसे
[H5315](#) [H3605](#) [H0853](#) [H2719](#) [H6310](#) [H5221](#) [H1931](#) [H3117](#) [H3920](#)

בַּיּוֹם הַהוּא בְּיַד יִשְׂרָאֵל כָּל־אֲשֶׁר־בָּהּ כָּל־אֲשֶׁר־בָּהּ כָּל־אֲשֶׁר־בָּהּ כָּל־אֲשֶׁר־בָּהּ כָּל־אֲשֶׁר־בָּהּ
 उस-दिन-में उस-दिन-में उस-दिन-में उस-दिन-में उस-दिन-में उस-दिन-में लाकीश-को किया-था जो सब-के-अनुसार नाश-किया
[H3923](#) [H3605](#) [H1931](#) [H3117](#)

उस दिन उन्होंने नगर पर अधिकार किया और नगर के सभी लोगों को मार डाला। यह वैसा ही किया जैसा उन्होंने लाकीश में किया था।

36 וַיַּעֲבֹר
 और-चढ़ा और-पार-हुआ
[H5700](#) [H3478](#) [H3605](#) [H3091](#) [H5927](#)

तब यहोशू और इस्राएल के सभी लोगों ने एग्लोन से हेब्रोन की यात्रा की। उन्होंने हेब्रोन पर आक्रमण किया।

37 וַיִּלְכְּדוּהָ בַּיּוֹם הַהוּא וַיָּבִיאוּ אֶת־יְהוָה לָכִישׁ בְּיַד יִשְׂרָאֵל וַיִּלְכְּדוּהָ בַּיּוֹם הַהוּא וַיָּבִיאוּ אֶת־יְהוָה לָכִישׁ בְּיַד יִשְׂרָאֵל
 और-पकड़ा-उसे और-मारा-उसे
[H0853](#) [H3605](#) [H0853](#) [H4428](#) [H0853](#) [H2719](#) [H6310](#) [H5221](#) [H3920](#)

כָּל־הַנְּפֹשׁ אֲשֶׁר־בָּהּ לֹא־בָּחַ אֶת־יְהוָה לָכִישׁ לְעֶזְרָא מֶלֶךְ הַרְּמָה וַיִּבְרָחוּ אֶת־יְהוָה לָכִישׁ לְעֶזְרָא מֶלֶךְ הַרְּמָה
 और-तलवार-की
[H5700](#) [H3605](#) [H3605](#) [H8300](#) [H7604](#) [H3808](#) [H5315](#) [H3605](#)

וַיִּבְרָחוּ אֶת־יְהוָה לָכִישׁ לְעֶזְרָא מֶלֶךְ הַרְּמָה וַיִּבְרָחוּ אֶת־יְהוָה לָכִישׁ לְעֶזְרָא מֶלֶךְ הַרְּמָה
 और-नाश-किया
[H5315](#) [H3605](#) [H0853](#) [H0853](#)

उन्होंने नगर तथा हेब्रोन के निकट के सभी छोटे उपनगरों पर अधिकार कर लिया। इस्राएल के लोगों ने नगर के हर एक व्यक्ति को मार डाला। वहाँ कोई भी जीवित नहीं छोड़ा गया। यह वैसा ही था जैसा उन्होंने एग्लोन में किया था। उन्होंने नगर को नष्ट किया और उसके सभी व्यक्तियों को मार डाला।

38 וַיָּשָׁב יְהוֹשֻׁעַ וְכָל-יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ דְבִירָה וַיִּלָּחֶם עִלְיָהּ :
 और-लौटा और-सब इस्राएल उसके-साथ दबीरा-को और-लड़ा उसके-विरुद्ध
[H3478](#) [H3605](#) [H3091](#) [H7725](#)

तब यहोशू और इस्राएल के सभी लोग दबीर को गए और उस नगर पर आक्रमण किया।

39 וַיִּלְכְּדָהּ וְאֶת-מַלְכָּהּ וְאֶת-כָּל-עַרְיָהּ וַיָּבִיאוּ לָפִי-חָרֶב
 और-पकड़ा-उसे और राजा-को-उसके सब और नगरों-को-उसके धार-से और-मारा-उन्हें तलवार-की
[H3605](#) [H0853](#) [H4428](#) [H0853](#) [H3920](#) [H2719](#) [H6310](#) [H5221](#)

וַיַּחְרִימוּ אֶת-כָּל-גִּבְשָׁן אֲשֶׁר-בָּהּ לֹא הִשְׁאִיר שְׂרִיד כְּאִשֶּׁר עָשָׂה לְחַבְרוֹן
 और-नाश-किया और-नाश-किया को सब प्राणियों जो उसमें नहीं बचाया जीवित कैसा किया-था हेब्रोन-की
[H5315](#) [H3605](#) [H0853](#) [H8300](#) [H7604](#) [H3808](#)

כִּן-עָשָׂה לְדְבִירָה וְלַמְלָכָהּ וְכַאֲשֶׁר עָשָׂה לְלִבְנָה וְלַמְלָכָהּ :
 वैसा किया-था दबीरा-को और-राजा-को-उसके और-जैसा और-जैसा लिवना-को किया-था और-राजा-को-उसके
[H4428](#) [H3841](#) [H4428](#)

उन्होंने उस नगर, उसके राजा और दबीर के निकट के सभी उपनगरों को जीता। उन्होंने उस नगर के सभी लोगों को मार डाला वहाँ कोई जीवित नहीं छोड़ा गया। इस्राएल के लोगों ने दबीर और उसके राजा के साथ वही किया जो उन्होंने हेब्रोन और उसके राजा के साथ किया था। यह वैसा ही था जैसा उन्होंने लिबना और उसके राजा के साथ किया था।

40 וַיָּבִיאוּ יְהוֹשֻׁעַ אֶת-כָּל-הָאָרֶץ הַהָרִי וְהַגִּבּוֹן וְהַשְּׁפֵלָה וְהַאֲשׁוּרֹת
 और-मारा और-मारा ने यहोशू-को सब को यहाँ-पहाड़ देश और-दक्षिण और-नीचली-भूमि और-ढलानें और
[H3605](#) [H0853](#) [H0794](#) [H8219](#) [H5045](#) [H2022](#) [H0776](#) [H3605](#) [H0853](#) [H3091](#) [H5221](#)

מַלְכֵיהֶם לֹא הִשְׁאִיר שְׂרִיד וְאֶת-כָּל-הַנְּשָׁמָה הַחַרְדִּים כְּאִשֶּׁר צִוְּתָה
 राजाओं-को-उनके नहीं बचाया जीवित और-सब और-लेनेवालों-को नाश-किया जैसा आज्ञा-दी-थी
[H6680](#) [H5397](#) [H3605](#) [H0853](#) [H8300](#) [H7604](#) [H3808](#) [H4428](#)

וַיְהוּהוּ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל :
 यहीवा-ने परमेश्वर इस्राएल-के
[H3478](#) [H0430](#) [H3068](#)

इस प्रकार यहोशू ने पहाड़ी प्रदेश नेगेव पश्चिमी और पूर्वी पहाड़ियों और तराई के नगरों के राजाओं को हराया। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से सभी लोगों को मार डालने को कहा था। इसलिए यहोशू ने उन स्थानों पर किसी को जीवित नहीं छोड़ा।

41 וַיָּבִיאוּ יְהוֹשֻׁעַ בְּרִנְעַמְקֶדֶשׁ וְעַד-עַזְזָה וְעַד-אֶרְצוֹ גִּבְעוֹן
 और-मारा-उन्हें यहोशू-ने कादेश-बर्नेआ-से और-तक और-तक अज्जा और-तक गीबोन
[H1391](#) [H5704](#) [H1657](#) [H0776](#) [H3605](#) [H0853](#) [H5804](#) [H5704](#) [H6947](#) [H3091](#) [H5221](#)

यहोशू ने कादेशबर्ने से अज्जा तक के सभी नगरों पर अधिकार कर लिया। उसने मिस्र में गोशेन की धरती से लेकर गीबोन तक के सभी नगरों पर कब्जा कर लिया।

42 וְאֶת-כָּל-הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה וְאֶת-אֲרָצָם לְכָד-יְהוֹשֻׁעַ עָבַם אֶחָת כִּי יְהוּהוּ
 और-सब राजाओं और ये और-उनके-देश पकड़ा यहोशू-ने बार एक क्योंकि यहीवा
[H3605](#) [H0428](#) [H4428](#) [H3605](#) [H0853](#) [H0259](#) [H6471](#) [H3091](#) [H3920](#) [H0776](#)

אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל נִלְחָם לְיִשְׂרָאֵל :
 परमेश्वर इस्राएल-का लड़ा इस्राएल-के-लिए
[H3478](#) [H3478](#) [H0430](#)

यहोशू ने एक अभियान में उन नगरों और उनके राजाओं को जीत लिया। यहोशू ने यह इसलिए किया कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएल के लिये लड़ रहा था।

43 וַיָּשָׁב יְהוֹשֻׁעַ וְכָל-יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ אֶל-הַמְּנַחָה הַגִּלְגָּלִית :
 और-लौटा और-सब इस्राएल उसके-साथ इस्राएल के-पास छावनी-के गिलगाल-में
[H3478](#) [H3605](#) [H3091](#) [H7725](#) [H0413](#) [H4264](#) [H1537](#)

तब यहोशू और इस्राएल के सभी लोग गिलगाल के अपने डेरे में लौट आए।